



उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH अनुबन्ध-पत्र / वचन-पत्र

ग्रहादि का विवरण

मैं एकदमांक अग्रेतर अनबन्ध बनता हूँ कि मैं निम्नलिखित उपन्यासों (स्टीपुलसन्स) का पालन करूँगा।

- (1) सर्विस कोनेक्शन एवं अन्य निर्धारित व्यव आदि की धनराशि जमा करना।
 (2) अन्य बाहित औपचारिकताये पूरी करना।

उपनीस्वरा एवं हस्ताक्षर

उपनामका का हस्ताक्षर विजयलाल उम्र.....
पुरा नाम.....

विता का नाम श्री

प्रिता का नाम श्री _____ पृष्ठा _____

ग्राम पाली पास्त

धाना जिला अस्सी जिला कर्म संघर्ष

विद्या-पुस्तक लेखन

84.P. काव्य-संग्रह
लेमी-५



मेरा धन व्यधनकालीन है। प्रचलित होता है कि इसपर विकल्प पर भवानीकरण किये जायें के अधीन इन यथान्-पत्र के निष्पादन के निमंत अपांकित स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण चुल्हा, यादें काई हो मुग्रान बालग/करमें उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH तथा प्रतिवन्धों को सुसंगतलप से प्राप्त कर दिया है।

CR 643592

१

उपभोक्ता का साक्षी
पूरा नाम तथा पता

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पिता का नाम श्री

ग्राम

थाना

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पिता का नाम श्री

ग्राम

थाना

पूरा नाम _____ उम्र _____

पिता का नाम श्री _____ अप्पीली लाल

ग्राम _____ पोस्ट _____

थाना _____ विधाय. अलीम जिला फ़िरोजाबाद

पूरा नाम _____ उम्र _____

पिता का नाम श्री _____ अप्पीली लाल

ग्राम _____ पोस्ट _____

थाना _____ विधाय. अलीम जिला फ़िरोजाबाद

1. प्रतिनृति की धनराशि का विवरण

(1) रसीद संख्या _____

(2) दिनांक _____

(3) धनराशि

(क) अंको में

(ख) शब्दों में

2. सम्परण प्रारम्भ होने का दिनांक _____

Munir
हस्ताक्षर
अनुबन्ध लिपिक

AN
हस्ताक्षर
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण पत्र

राज्य सरकार से अनुदानित (लाइसेन्स) प्राप्त ठीकेदार द्वारा भरा जायेगा।

वामी का नाम -

का नाम -

संस्थाका अवस्थित -

संस्था एवं प्रदाय की प्रणाली -

(1) बोल्टा $230V$

(2) कलाओं (फेजो की संख्या) 3

(3) एसी० / डी०सी० - 50

शब्दिंग का प्रयोजन

शब्दिंग का प्रकार (वैटन कन्डियूट इत्यादि)

संख्यान की विशिष्टियाँ :-

प्री-वाल्व का

प्री-मिळी लाल

प्री-महुआट पिं-पा-घिया

प्री-नाप्ट मिरजाहुट

अपी.प. मिळी नालाव किलोग्राम

$220/230$ वोल्ट 50 हर्ट्ज

रिग्ल कैप्ट

ले लिल वारियर

	220/230 वोल्ट्स			400/440 वोल्ट्स			उच्च / अति उच्च बोल्ट्ता संस्थापन
	फेज-1	फेज-2	फेज-3	कुल वाद्स	कुल वाद्स	कुल वाद्स	
संख्या	कुल वाद्स	संख्या	कुल वाद्स	संख्या	कुल वाद्स	संख्या	कुल वाद्स

I- (1) बत्तियों के प्लाइट

(2) पंखों के प्लाइट

(3) प्लग के प्लाइट

(4) मोटरें/जनरेटर्स

(पूर्ण व्यीरा दिया जाये)

अपी.प. ए १ = अपी.प. मोटर

$60 \times 2 = 120$ फैट

$220/230$ वोल्ट

प्री-मोटर

प्री-मोटर

वोग

II- अन्य उपस्कर (पूरा व्यीरा दिया जाय)

(1)

(2).

कुल संयोजित भार किलोमीटर में -

अधिकतम् करन्ट मांग, एम्पियर में -

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

अपी.प. मोटर

१०८